



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 26]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 9, 2002/पौष 19, 1923

No. 26]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 9, 2002/PAUSA 19, 1923

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 9 जनवरी, 2002

का.आ. 41(अ). केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आन्ध्र प्रदेश राज्य में गुन्टूर जिले में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 के 355/000 कि.मी. से 358/000 कि.मी. (चेन्नई-विजयवाड़ा सेक्शन) तक खड़ को चौड़ा करने के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे उपायुक्त अनुसूची में दिया गया है, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

इस भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 21 दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, राजस्व प्राभागीय अधिकारी पारसारावपेट गुन्टूर, आन्ध्र प्रदेश को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिस्थित किए जाने और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि द्वारा चुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात् यदि कोई है जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेप को अनुज्ञात या अनुज्ञात करेगा,

उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा 2क के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा; और

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अवसूची

आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ५, किमी ३५५/००० से किमी ३५८/००० तक (चेन्नेई विजयवाड़ा खण्ड) सम्भाग के परतायित अधिकार क्षेत्र में आने वाली जमीन सहित अथवा निर्माण रहित भूमि का राक्षेप नीचा

जिला-गुन्टूर

क्र.सं.	मण्डल/मुहल्ला/लेख	गाँव का नाम	राक्षेप सं०	भूमि की किस्म	भूमि का क्षेत्रफल एकड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	चिलाकाबुसीपेट	(1) मुरिहीपुडी	729/A/D	जिजी	0 18
			729/A/B	जिजी	0 20
			726/2	जिजी	0 05
			725/A/B	जिजी	0 26
			725/A/A	जिजी	0 33
		(2) दाटापुडी	46/14	जिजी	0 57
			48/14	जिजी	0 02
			48/13	जिजी	0 01
			49/5	जिजी	0 44
			49/3A	जिजी	0 25

[स. एनएचआई/11014/3ए(1)/2001/गुन्टूर/ए.पी./टेक./जी.एम.(ई-II)]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2002

S.O. 41(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to be the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the lands, the brief description of which are given in the Schedule annexed below, are required for widening of National Highway No.5 in the stretch from Km. 355.000 to Km. 358 000 (Channei -Vijayawada Section) in the District Guntur in the State of Andhra Pradesh hereby declares its intention to acquire such lands for the aforesaid purpose;

Any person interested in the land, may, within twenty/one days from the date of publication of this notification, raise objection to the use of the land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act ;

Every such objection shall be made to the competent authority, Revenue Officer, Narasaraopet, Guntur, Andhra Pradesh, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may after hearing of such objections and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objection,

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of the section 3C of the said Act shall be final; and

The land plans and other details of lands covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land with or without structure falling within proposed right-of-way of National Highway No.5 in the stretch from Km 355 000 to Km 358 000 (Channei-Vijayawada Section) in the District Guntur in the State of Andhra Pradesh

District : Guntur

S No	Mandal/Head Quarter	Name of the Village	Survey No	Type of Land	Area of Land in Acres
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Chilakaluripet	(1) Murkipudi	729/A/D	Private	0 18
			729/A/B	Private	0 20
			726/2	Private	0 05
			725/A/B	Private	0 26
			725/A/A	Private	0 33
		(2) Tatapudi	46/14	Private	0 57
			48/14	Private	0 02
			48/13	Private	0 01
			49/5	Private	0 44
			49/3A	Private	0 25

[No NHAI/11014/3A(1)/2001/Guntur/A P/Tech /G M (E-II)]

ALOK RAWAT, Jt Secy

